

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०

रामपुर रजा लाइब्रेरी की बैठक सम्पन्न

नवाब फैजुल्ला खान और नवाब रजा अली खान एवार्ड प्रदान करने के लिये नयी समिति का गठन किया जाये

- राज्यपाल

लखनऊ: 28 जनवरी, 2015

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं अध्यक्ष, रामपुर रजा लाइब्रेरी, श्री राम नाईक ने राजभवन में आयोजित रामपुर रजा लाइब्रेरी बोर्ड की बैठक में कहा कि नवाब फैजुल्ला खान और नवाब रजा अली खान एवार्ड प्रदान करने के लिये संतोषजनक नाम प्राप्त न होने के कारण एक समिति बनाकर नये सिरे से नाम आमंत्रित किये जाये। उन्होंने कहा कि प्रचार माध्यम द्वारा सूचित करके समयबद्धता के साथ आगामी 28 फरवरी तक नाम प्राप्त करके तथा 31 मार्च, 2015 तक एवार्ड प्राप्त करने वालों के नाम घोषित किये जाये। सभी विख्यात विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर विद्वानों के नाम भेजने का अनुरोध किया जाये तथा इस कार्य हेतु भाषाई आयोग, भारत सरकार से भी सहयोग लिया जाये। रजा रामपुर लाइब्रेरी द्वारा दिये जाने वाले एवार्ड में संस्कृत, फारसी, अरबी, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साथ-साथ इस्लामिक स्टडीज को भी इस श्रेणी में जोड़ा जाये। उन्होंने कहा कि आम लोग भी ऐसे विद्वानों का नाम सीधे समिति को भेज सकते हैं।

राज्यपाल ने लाइब्रेरी के रखरखाव में उपयोग के लिये क्रय किये जाने वाले सामान के लिये सरकारी वित्तीय नियमों का पारदर्शिता एवं कड़ाई से अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये हैं। चमड़े पर लिखे 'कुरानशरीफ' के संवर्धन के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि इसके लिये एक समिति बनाकर विशेषज्ञों की राय से कराया जाये, जिसमें पारदर्शिता के साथ-साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि ऐसी दुर्लभ प्रति को कोई क्षति न पहुंचे। इस संबंध में सम्भावित खर्च व कार्यदायी एजेन्सी के संबंध में अन्य विख्यात लाइब्रेरी व संग्रहालयों से भी विचार-विमर्श करके निर्णय लिया जाये। उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही रामपुर जाकर इस बात को स्वयं देखेंगे कि बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है या नहीं।

श्री नाईक ने लाइब्रेरी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाये जाने के बोर्ड के प्रस्ताव पर भी विचार करने की बात कही। रजा लाइब्रेरी और अधिक अच्छी कैसे हो यह उनका उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि निदेशों का पालन और क्रियान्वयन देखना लाइब्रेरी बोर्ड एवं निदेशक का कार्य है, जिसका समय-समय पर विधिवत अनुश्रवण होना चाहिये।

बैठक में प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, सुश्री जुथिका पाटणकर, जिलाधिकारी, रामपुर, श्री सी०डी० त्रिपाठी, निदेशक, रजा रामपुर लाइब्रेरी, प्रो० एस०एम० अजीजुद्दीन, प्रो० आई०आर० जैदी, प्रो० अब्दुल अली, श्री जगदीश पीयूष, प्रो० आई०एम०खान, नवाब काजिम अली खां व नवाब मोहम्मद अली खां भी उपस्थित थे।

